

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर

वार्षिकोत्सव

11 मई 2015

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर में 11 मई 2015 को विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया | इस अवसर पर माननीय श्री सर्वेश दीक्षित जी अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे | वार्षिकोत्सव का शुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ | कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत भक्तिमयी सरस्वती वंदना से हुई | अभिभावकों, गणमान्य अतिथियों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार जी ने विद्यालय की वार्षिक आख्या प्रस्तुत की अपने संबोधन में प्राचार्य जी ने गत वर्ष में विद्यालय के छात्रों द्वारा विविध क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों एवम सफलताओं को रेखांकित किया इसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गयी | इस क्रम में राधा - कृष्ण की प्रीति को प्रवहित करता नृत्य, कजरी गीत, कौव्वाली प्रस्तुत की गयी | विद्यालय के नन्हें - मुन्नें छात्रों ने " मैंने कहा फूलों से " गीत पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया गया | लड़के एवं लड़की के भेद को मिटाने का आवाहन करती हुई एकांकी - "हमारा हक" के मंचन को सभी दर्शकों द्वारा करतल से सराहा गया | योग के महत्त्व को बच्चों ने योगासनों के माध्यम से प्रस्तुत किया | नृत्य नाटिका विश्व शांति के माध्यम से छात्रों ने विश्व शांति का संदेश दिया | फ्यूजन कार्यक्रम दर्शकों को बहुत भाया | भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के विविध रंगों को एक माला में पिरोकर माँ भारती के चरणों में समर्पित नृत्य श्रृंखला प्रस्तुत की गयी, जिसकी सभी ने भूरि भूरि प्रशंसा की | विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री सर्वेश दीक्षित अपर जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों एवम प्राचार्य महोदय की प्रशंसा की | धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उप-प्राचार्य श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा किया गया | राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ |